

प्रेस नोट
एसटीएफ टीम लखनऊ व थाना सुरियावां पुलिस को मिली बड़ी सफलता

**अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर से कुल 750 कि0ग्रा0 गांजा कीमती (लगभग 75 लाख रूपया) व
01 अदद कन्टेनर ट्रक(कीमती लगभग 25 लाख रू0) 01 अदद जायलो (कीमती 09 लाख)के साथ 05 नफर गांजा तस्कर गिरफ्तार**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक भदोही महोदय द्वारा जनपद में हो रहे मादक पदार्थों की तस्करी रोकने व मादक पदार्थों की बरामदगी तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त थानों को विशेष रूप से कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। एसटीएफ टीम लखनऊ को भी मादक पदार्थों की तस्करी रोकथाम हेतु लगाया गया था के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय भदोही के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी भदोही महोदय के नेतृत्व में दिनांक- 14.11.2020 को थाना सुरियावां व एसटीएफ टीम लखनऊ की टीम को नेतानगर से एक कन्टेनर में 750 कि0ग्रा0 गांजा कीमती (लगभग 75 लाख रूपया) के साथ 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.284/2020 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण- पूछने पर अभियुक्त भीम प्रसाद गुप्ता उर्फ भूषण साहू ने बताया कि हम सभी लोग आन्ध्र प्रदेश से अवैध गांजा को लाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लाकर अवैध रूप से बेचते हैं। कुछ लोग जायलो लेकर आगे आगे स्कोर्ट करते हैं माल लेकर हम लोग रानीगंज प्रतापगढ़ जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता- 1. राजेश पाल उर्फ सोनू पुत्र द्वारिका पाल निवासी खदाँव पोस्ट आफिस खुदरू थाना दिनारा जनपद रोहतास बिहार
2. सुरेन्द्र कुमार जयसवाल पुत्र मेवा लाल जयसवाल निवासी ग्राम मिरजापुर चौहारी रानीगंज प्रतापगढ़
3. हेन्द्र कुमार पाल पुत्र शिव वचन पाल निवासी ग्राम बेलहरी पोस्ट आफिस बम्भौर थाना मोहनिया जिला भभुवा बिहार
4. भीम प्रसाद गुप्ता उर्फ भूषण साहू पुत्र वासुदेव साहू निवासी ग्राम वेद व्यास जिला सुन्दरगढ़ उडिसा बताया
5. धीरज कुमार पुत्र केवल सिंह निवासी ग्राम मेघपुर थाना खुदवा जिला औरंगाबाद

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक- नेता नगर थाना सुरियावां दिनांक – 14.11.2020 व समय- 07.30 बजे।

बरामदगी का विवरण-

- 1.25 सफेद बोरे में 750 किलोग्राम गांजा
 2. एक अदद कन्टेनर नम्बर UP 72 AT 7706 व एक अदद कार
 3. महिन्द्रा जायलो नं0 DL 3CBM0552 लाल कलर
- कुल बरामदगी की कीमत- लगभग 1 करोड 09 लाख रूपये**

